

क्या आप बिमारियों की राह देख रहे हैं ?

क्या आप बिमारी आने के बाद भागना शुरू करेंगे ?

- जो लोगो ने कभी सुर्योदय नहीं देखा था अब नियमित सुर्य नमस्कार करते हैं।
- जो लोग पहले चलने से इन्कार करते थे अब जॉग, रन, हॉप करने लगे हैं।
- अब वे योगा, जुम्बा, ऐरोबिक्स, ध्यान भी करते हैं और जिम हिट करते हैं।
- अब वे तंदुरुस्त रहने वाले उत्पादों को लेने के लिए तैयार हैं, जिन्हें उन्होंने मना कर दिया था।
- अब वे ठिक होने के लिए बड़े पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं।

क्यों की उनको **जानकारी** मिली

(चिकित्सा निदानों के बाद डॉक्टर द्वारा दियीं गईं)

बिमारियों / दर्द / पीडा / वित्तीय बोझ / मृत्यु का डर
अपने आप से पुछो

क्या आपके भविष्य के
स्वास्थ्य पर आपके पास कोई
प्रामाणिक जानकारी है ?

क्या आप जानते हैं कि आपको
वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का मूल
कारण क्या है ?

क्या आप अपने परिवार
स्वास्थ्य की भविष्य की
जटिलताओं को जानते हैं ?



Why?

अगर आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करते हैं, तो आप जिन्दा कहाँ रहेंगे

ONCE IN A LIFE TIME GENITICS PROGRAM (DNA TEST)

के द्वारा आपके बिमारियों के मूल कारण का पता लगाए।

क्या आपको जेनेटिक रिस्क है।

- विटामिन की कमी : विटामिन - ए, विटामिन - बी - १२, विटामिन - सी।
- खाने की अलर्जी (Allergies) गेहूँ, दूध, कैफिन और फायबर।
- वजन बढ़ने (मोटापे) के लिए अनुवांशिक जोखिम (Genetic Risk)
- वजन घटाने के लिए आदर्श आहार खोजे।
- वजन फिरसे बढ़ने का जोखिम (आदर्श वजन प्रबंधन समाधान पता लगाए)
- आदर्श वजन घटाने के लिए आहार और खेल पोषण आदि पता लगाए।
- मधुमेह (संभावित अनुवांशिक जोखिम (Genetic Risk))
- मेटफॉर्मिन प्रतिक्रिया का पता लगाए।
- हृदय रोग संभावित अनुवांशिक जोखिम (Genetic Risk)
- कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराईड, होमोसिस्टिन इत्यादी।
- टखने, घुटने और जोड़ो (ज्वाइंट्स) कि संभावित अनुवांशिक जोखिम (Genetic Risk)
- मांसपेशी, क्षति, सुजन समस्याएँ (Pain Management)
- लत जोखिम (Addiction Risk) : शराब, धुम्रपान, नशिले पदार्थ, सोशल मिडिया इ।

२०० से भी जादा बिमारियों से अपने और अपने परिवार के सदस्य की रक्षा करे।

- सलायवा (लार) सैम्पल के द्वारा DNA टेस्ट।
- प्रमुख ३८ शारीरिक जांच रिपोर्ट्स।
- जेनेटिक एक्सपर्ट्स द्वारा काऊंसिलिंग।
(पर्सनलाइज्ड जिन बेस डाईट प्लान)
- ६ साल की जिन बैंकिंग सुविधा।

भोजन आपकी शक्तिशाली
दवा हो सकती है।



आधुनिक बिमारियाँ
80% ग्लूटेन इंटोलरन्स
40% कैफिन (चाय, कॉफी) इंटोलरन्स
90% लैक्टोज (दूध) इंटोलरन्स
64% विटामिन बी-१२, डी-३ डिफिशियन्सी

HEALTH POINT & SMILE SUJOK

Add: 503,5th floor,Pranav CHS, Above Abhinav Sahakari Bank, Beside Rajmal Lakhichand Jewellers,
Gavdevi Cross Road, Thane (Mumbai) - West,400602

Contact: **GAWAS**
9820664650



WAITING FOR DISEASES TO WAKE YOU UP?



- People who Never Saw the Sunrise, Now Do Regular Surya Namaskar
- People who Earlier Refused to Walk, Now Jog, Run, Hop and Skip Daily
- Now, they also do Yoga, Zumba, Aerobics, Meditation and Hit the Gym
- Now, they are Ready to Take Wellness Products Which they Had Refused
- Now, they are Ready to Pay Big Amount on Disease & Hospitals

INFORMATION

Given by Health Professionals after Medical Diagnosis

Fear of Diseases / Pain / Suffering / Financial Burden / Death

ASK YOURSELF

Do You Have any Authentic Information on your Future Health?

Do You Know What is the Root Cause of Your Present Health Condition?

Do You Know the Future Complications of Your Health?



Why?

AN OUNCE OF PREVENTION IS WORTH A POUND OF CURE

FIND OUT THE ROOT CAUSE

OF YOUR DISEASES (ALL LIFESTYLE & AUTOIMMUNE) THROUGH

ONCE IN A LIFETIME GENETICS PROGRAM (DNA TEST)

DO YOU HAVE LIFE TIME RISK FOR...

- **Vitamin Deficiency: Vitamin A, Vitamin B12 & Vitamin D?**
- **Food Intolerance: Gluten & Lactose?**
- **Genetic Risk for Obesity? (Find Out Ideal Diet for Weight Loss)**
- **Weight Regain? (Find Out Ideal Weight Management Solutions)**
- **Also Find Out Ideal Weight Loss Diet & Sports Nutrition etc.**
- **Diabetic? (Find Out Metformin Response)**
- **Cardio Vascular Disease? (Find Out Hypertension Reversal Solutions)**
- **Injury Risk: Ankle & Knee Injury?**
- **Muscle Damage & Inflammation?**
- **Addiction Risk: Alcohol, Smoking, Drugs, Social Media etc.?**



MODERN DISEASES

- 40%** GLUTEN (WHEAT) INTOLERANCE
- 50%** CAFFEINE (TEA, COFFEE) INTOLERANCE
- 70%** LACTOSE (MILK) INTOLERANCE
- 85%** VITAMIN (VIT B12 & D3) DEFICIENCY

PROTECT YOURSELF & YOUR FAMILY MEMBERS FROM MORE THAN 200+ DISEASES TODAY!

- ❖ DNA TEST FROM SALIVA SAMPLE
- ❖ 38 DNA PHENOTYPE REPORT
- ❖ COUNSELING FROM GENETIC EXPERTS
- ❖ PERSONALISED GENE BASED DIET PLAN
- ❖ 6 YEARS GENE BANKING FACILITY.

FOOD CAN BE YOUR POWERFUL MEDICINE

HEALTH POINT & SMILE SUJOK

Add: 503,5th floor,Pranav CHS, Above Abhinav Sahakari Bank, Beside Rajmal Lakhichand Jewellers, Gavdevi Cross Road, Thane (Mumbai) - West,400602

Contact: **GAWAS**
9820664650

